



# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

## अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा – 2016

### प्रवेश सूचना

शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के तहत तथा सहभागी राज्यों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नियंत्रणाधीन सीटों के लिए एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सों में प्रवेश हेतु दिनांक 1 मई 2016 (रविवार) को आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/ प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा, 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

#### परीक्षा की पद्धति

एआईपीएमटी प्रवेश परीक्षा में केवल एक ही पेपर होगा जिसमें भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान (वनस्पति एवं प्राणि विज्ञान) से 180 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न (एक सही उत्तर सहित 4 विकल्प) होंगे। परीक्षा की अवधि पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक 3 घंटे की होगी।

#### पात्रता मानदण्ड

- भारतीय नागरिक और भारत के विदेशी नागरिक अखिल भारतीय प्री मेडिकल/ प्री डेंटल (एआईपीएमटी) प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।
- उम्मीदवार ने प्रवेश के समय अथवा प्रवेश के वर्ष यानी 31 दिसम्बर 2016 तक या उससे पूर्व 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- 15% अखिल भारतीय कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 31 दिसम्बर, 2016 को 25 वर्ष है तथा इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट है।
- सहभागी राज्यों/ विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के नियंत्रणाधीन एमबीबीएस/ बीडीएस सीटों में प्रवेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा संबंधित राज्यों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के नियमों के अनुसार होगी।
- उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन-शास्त्र, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी एवं अंग्रेजी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्हक परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी को मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित उम्मीदवारों द्वारा 50% की बजाय 40% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, निचले अंकों की गतिक अपंगता/ निःशक्तता वाले सामान्य श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग के लिये 45% अंक एवं अनुसूचित जाति-शारीरिक रूप से विकलांग/ अनुसूचित जनजाति-शारीरिक रूप से विकलांग/ अन्य पिछड़ा वर्ग-शारीरिक रूप से विकलांग के लिये 40% अंक होना आवश्यक है। वर्ष 2016 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी अस्थायी/अनंतिम रूप से प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्त कि वे बाद में सभी शर्तों को पूरा कर लें।
- आंध्रप्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के उम्मीदवार 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के पात्र नहीं हैं क्योंकि इन राज्यों ने अखिल भारतीय कोटा सीट योजना को नहीं चुना है। फिर भी ऐसे उम्मीदवार ए०एफ०एम०सी०, पुणे में प्रवेश के लिए ए०आई०पी०एम०टी० में शामिल होने के पात्र हैं।

#### भाग लेने वाले राज्य सरकारें/ विश्वविद्यालय/ संस्थान

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणीपुर, मेघालय\*, ओडिशा, राजस्थान, चण्डीगढ़, दिल्ली विश्वविद्यालय, सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने अपने नियंत्रणाधीन सीटों के लिए मेडिकल कॉलेजों/ डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एआईपीएमटी- 2016 की मेरिट सूची का स्वेच्छिक रूप से उपयोग करने के लिए निर्णय लिया है। अभ्यर्थी इन राज्य/विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं वे अग्रिम रूप से संबंधित राज्य/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपनी पात्रता शर्तों की पुष्टि कर लें।

\* राज्य सरकार द्वारा पुष्टि होने पर

#### समय-सारणी और शुल्क विवरण

बिना विलंब शुल्क के		
ऑनलाइन आवेदन करने की समय-सारणी	ई-चालान द्वारा शुल्क हेतु 15.12.2015 (मंगलवार) से 08.01.2016 (शुक्रवार) तक	अन्य प्रकार से शुल्क हेतु 15.12.2015 (मंगलवार) से 12.01.2016 (मंगलवार) तक
शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान की अंतिम तिथि	12.01.2016 (मंगलवार)	12.01.2016 (मंगलवार)
विलम्ब शुल्क के साथ		
ऑनलाइन आवेदन करने की समय-सारणी	ई-चालान द्वारा शुल्क हेतु 13.01.2016 (बुधवार) से 06.02.2016 (शनिवार) तक	अन्य प्रकार से शुल्क हेतु 13.01.2016 (बुधवार) से 10.02.2016 (बुधवार) तक
शुल्क के सफलतापूर्वक अंतिम भुगतान की अंतिम तिथि	10.02.2016 (बुधवार)	10.02.2016 (बुधवार)
शुल्क विवरण		
	विलम्ब शुल्क के बिना	विलम्ब शुल्क सहित
सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए	₹ 1400/-	₹ 2800/- (₹ 1400+ ₹. 1400)
अ.जा/अ.ज.जा/शा.वि.	₹ 750/-	₹ 2150/- (₹ 750 + ₹. 1400)

#### सामान्य सेवा केन्द्र / सुविधा केन्द्र

आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की सहायता ले सकते हैं। सुविधा केन्द्रों की सूची वेबसाइट [www.aipmt.nic.in](http://www.aipmt.nic.in) पर उपलब्ध है।

#### सूचना बुलेटिन

परीक्षा, पाठ्यक्रम, प्रवेश/ शामिल होने के पात्रता मानदंड, आरक्षण, परीक्षा शुल्क, परीक्षा के शहर, पात्रता का राज्य कोड, आयु, आदि की विस्तृत जानकारी सूचना बुलेटिन में वेबसाइट [www.aipmt.nic.in](http://www.aipmt.nic.in) पर उपलब्ध है। उम्मीदवार विस्तृत सूचनाओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध सूचना बुलेटिन देख सकते हैं।

#### पता

सहायक सचिव (परीक्षा)  
ए०आई०पी०एम०टी० एकक  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2-सामुदायिक केन्द्र,  
प्रीत विहार, दिल्ली - 110092

#### संपर्क का विवरण

वेबसाइट [www.aipmt.nic.in](http://www.aipmt.nic.in)  
ई-मेल [aipmt.cbse@nic.in](mailto:aipmt.cbse@nic.in)  
दूरभाष सं० 011-22509256-59,  
22521081  
फैक्स सं० 011-22509251

विशेष कार्याधिकारी  
ए०आई०पी०एम०टी०,  
सी०बी०एस०ई०